



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 42) पटना, वृहस्पतिवार, 16 जनवरी 2025

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
28 दिसम्बर 2024

सं० एल/एच०जी०-14-16/2024-12796—बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में जिला समादेष्टा पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित-01 (एक) अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन लेवल-9 (अनुमान्य भत्तों के साथ) में औपबंधिक रूप से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के रूप में उनके योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	नाम	पिता का नाम/ स्थायी पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आवंटित आरक्षण कोटि
1	श्री अभिषेक राज	श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम-छोटा बरियारपुर, हवाई अड्डा, वार्ड नं०-40, पोस्ट-मोतिहारी कोर्ट, थाना-छतौनी, प्रखण्ड-मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (बिहार) पिन कोड-845401	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	18	01 (अनारक्षित)

(i) उपर्युक्त नवनियुक्त जिला समादेष्टा की परीक्ष्यमान अवधि 3 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(ii) उपर्युक्त नवनियुक्त जिला समादेष्टा, अधिसूचना प्राप्ति के पश्चात् अपना योगदान वांछित दस्तावेज के साथ दिनांक-30.12.2024 के पूर्वान्हन तक महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्नि शाम सेवाएँ, बिहार, छज्जुबाग, पटना के समक्ष समर्पित करेंगे।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में संबंधित बोर्ड/संस्था/प्राधिकार से यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नवनियुक्त जिला समादेष्टा की

नियुक्ति/सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जा सकती है एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकेगी।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, वांछित प्रमाण पत्र/कागजात यदि समर्पित नहीं किये गये हैं, तो परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय वांछित प्रमाण पत्र महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के समक्ष निश्चित रूप से समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(v) अभ्यर्थी योगदान/प्रभार ग्रहण के समय हाल का पासपोर्ट साईज का दो अदद फोटोग्राफ/मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र/तिलक-दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र/चल-अचल संपत्ति विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(vi) महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना, नवनियुक्त जिला समादेष्टा से कंडिका (iv) एवं (v) में अंकित कागजात/फोटो आदि प्राप्त करने के उपरांत उनका योगदान अविलम्ब स्वीकार करना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी एक-एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गया के आदेश ज्ञापांक-5740, दिनांक-21.12.2024 के आलोक में प्रशिक्षण हेतु उन्हें दिनांक-31.12.2024 के पूर्वाहन में विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में बिपार्ड से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर इनके वेतन का भुगतान मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 42-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>